



# Sample Horoscope

05 Mar 1987

07:15 AM

Jeypore

Model: Shani-Sadesati-Report

SrNo: 101-101-102-9911 / 702

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: पुल्लिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 05/03/1987  
दिन \_\_\_\_\_: गुरुवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 07:15:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 02:26:11 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Jeypore  
राज्य \_\_\_\_\_: Odisha  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 18:52:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 82:38:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:32 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 07:15:32 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:11:41 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 18:04:40 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 06:16:31 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 18:05:58 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 11:49:27 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: उत्तरायण  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: दक्षिण  
ऋतु \_\_\_\_\_: वसन्त  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 20:16:24 कुम्भ  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 07:48:46 मीन

### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: मीन - गुरु  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: मेष - मंगल  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: भरणी - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: शुक्र  
योग \_\_\_\_\_: ऐन्द्र  
करण \_\_\_\_\_: कौलव  
गण \_\_\_\_\_: मनुष्य  
योनि \_\_\_\_\_: गज  
नाड़ी \_\_\_\_\_: मध्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: क्षत्रिय  
वश्य \_\_\_\_\_: चतुष्पाद  
वर्ग \_\_\_\_\_: मृग  
चुँजा \_\_\_\_\_: पूर्व  
हंसक \_\_\_\_\_: अग्नि  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: ले-लेखपाल  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: रजत - स्वर्ण  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: मीन



## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1908	फाल्गुन	14
पंजाबी	संवत : 2043	फाल्गुन	22
बंगाली	सन् : 1393	फाल्गुन	20
तमिल	संवत : 2043	मासी	21
केरल	कोल्लम : 1162	कुंभम	21
नेपाली	संवत : 2043	फाल्गुन	21
चैत्रादि	संवत : 2043	फाल्गुन	शुक्ल 6
कार्तिकादि	संवत : 2043	फाल्गुन	शुक्ल 6

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 6  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 26:35:25  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 6  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : भरणी  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 14:08:07 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : भरणी  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : ऐन्द्र  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 13:08:03 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : ऐन्द्र  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 13:54:48 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
भयात \_\_\_\_\_ : 46:15:42  
भभोग \_\_\_\_\_ : 63:28:30  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : शुक्र 5 वर्ष 4 मा 13 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : कार्तिक  
तिथि \_\_\_\_\_ : 1-6-11  
दिन \_\_\_\_\_ : रविवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मघा  
योग \_\_\_\_\_ : विष्कुम्भ  
करण \_\_\_\_\_ : बव  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : सिंह  
लग्न \_\_\_\_\_ : मेष  
सूर्य \_\_\_\_\_ : कर्क  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : मेष  
मंगल \_\_\_\_\_ : सिंह  
बुध \_\_\_\_\_ : वृष  
गुरु \_\_\_\_\_ : कन्या  
शुक्र \_\_\_\_\_ : तुला  
शनि \_\_\_\_\_ : मिथुन  
राहु \_\_\_\_\_ : वृश्चिक

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



## लग्न कुण्डली और दशा

### लग्न कुंडली

रा ल गु	मं चं		
बु सू			
शु			
	श		के

### लग्न कुंडली

	मं चं	गु ल	रा बु सू
			शु
के			श

विंशोत्तरी  
शुक्र 5वर्ष 4मा 13दि  
शुक्र

05/03/1987

17/07/2092

शुक्र	17/07/1992
सूर्य	18/07/1998
चन्द्र	17/07/2008
मंगल	18/07/2015
राहु	17/07/2033
गुरु	17/07/2049
शनि	17/07/2068
बुध	17/07/2085
केतु	17/07/2092

योगिनी  
भद्रिका 1वर्ष 4मा 3दि  
भामरी

08/07/2015

08/07/2019

भामरी	17/12/2015
भद्रिका	07/07/2016
उल्का	08/03/2017
सिद्धा	17/12/2017
संकटा	06/11/2018
मंगला	17/12/2018
पिंगला	08/03/2019
धान्या	08/07/2019





## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कुम्भ 22:44:33	मीन 07:48:46
2	मीन 22:44:33	मेष 07:40:20
3	मेष 22:36:07	वृष 07:31:54
4	वृष 22:27:41	मिथुन 07:23:28
5	मिथुन 22:27:41	कर्क 07:31:54
6	कर्क 22:36:07	सिंह 07:40:20
7	सिंह 22:44:33	कन्या 07:48:46
8	कन्या 22:44:33	तुला 07:40:20
9	तुला 22:36:07	वृश्चिक 07:31:54
10	वृश्चिक 22:27:41	धनु 07:23:28
11	धनु 22:27:41	मकर 07:31:54
12	मकर 22:36:07	कुम्भ 07:40:20


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मीन	07:48:46
2	मेष	13:01:13
3	वृष	11:56:26
4	मिथुन	07:23:28
5	कर्क	02:58:08
6	सिंह	02:14:50
7	कन्या	07:48:46
8	तुला	13:01:13
9	वृश्चिक	11:56:26
10	धनु	07:23:28
11	मकर	02:58:08
12	कुम्भ	02:14:50


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा
पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी
पूर्वाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली






## कारक, अवस्था, रश्मि

ग्रह	----- कारक -----			----- अवस्था -----			ग्रह बल
	चर	स्थिर	बालादि	दीप्तादि	शयनादि	रश्मि	
सूर्य	भातृ	पितृ	वृद्ध	खल	कौतुक	7.24	16 %
चंद्र	अमात्य	मातृ	वृद्ध	शान्त	आगम	4.25	73 %
मंगल	मातृ	भातृ	युवा	स्वस्थ	नृत्यलिप्सा	4.30	49 %
बुध	पुत्र	ज्ञाति	कुमार	विकल	प्रकाश	0.00	36 %
गुरु	कलत्र	धन	वृद्ध	स्वस्थ	नृत्यलिप्सा	3.61	46 %
शुक्र	ज्ञाति	कलत्र	वृद्ध	मुदित	नृत्यलिप्सा	6.01	60 %
शनि	आत्मा	आयु	बाल	खल	नृत्यलिप्सा	1.59	42 %
राहु	---	ज्ञान	कुमार	निपीदित	प्रकाश	0.00	31 %
केतु	---	मोक्ष	कुमार	खल	नृत्यलिप्सा	0.00	31 %
कुल						26.99	


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा
पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल
पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी

### चलित कुंडली



### लग्न-चलित



## विंशोत्तरी दशा

### भोग्य दशा काल : शुक्र 5 वर्ष 4 मास 13 दिन

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष
05/03/1987	17/07/1992	18/07/1998	17/07/2008	18/07/2015
17/07/1992	18/07/1998	17/07/2008	18/07/2015	17/07/2033
00/00/0000	सूर्य 04/11/1992	चंद्र 18/05/1999	मंगल 13/12/2008	राहु 30/03/2018
00/00/0000	चंद्र 05/05/1993	मंगल 17/12/1999	राहु 01/01/2010	गुरु 23/08/2020
00/00/0000	मंगल 10/09/1993	राहु 17/06/2001	गुरु 08/12/2010	शनि 30/06/2023
00/00/0000	राहु 05/08/1994	गुरु 17/10/2002	शनि 16/01/2012	बुध 16/01/2026
00/00/0000	गुरु 24/05/1995	शनि 17/05/2004	बुध 13/01/2013	केतु 03/02/2027
05/03/1987	शनि 05/05/1996	बुध 17/10/2005	केतु 11/06/2013	शुक्र 03/02/2030
शनि 17/07/1988	बुध 11/03/1997	केतु 18/05/2006	शुक्र 11/08/2014	सूर्य 29/12/2030
बुध 18/05/1991	केतु 17/07/1997	शुक्र 16/01/2008	सूर्य 17/12/2014	चंद्र 29/06/2032
केतु 17/07/1992	शुक्र 18/07/1998	सूर्य 17/07/2008	चंद्र 18/07/2015	मंगल 17/07/2033

गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष
17/07/2033	17/07/2049	17/07/2068	17/07/2085	17/07/2092
17/07/2049	17/07/2068	17/07/2085	17/07/2092	00/00/0000
गुरु 04/09/2035	शनि 20/07/2052	बुध 14/12/2070	केतु 13/12/2085	शुक्र 17/11/2095
शनि 18/03/2038	बुध 30/03/2055	केतु 11/12/2071	शुक्र 13/02/2087	सूर्य 16/11/2096
बुध 23/06/2040	केतु 08/05/2056	शुक्र 11/10/2074	सूर्य 20/06/2087	चंद्र 18/07/2098
केतु 30/05/2041	शुक्र 09/07/2059	सूर्य 17/08/2075	चंद्र 19/01/2088	मंगल 17/09/2099
शुक्र 29/01/2044	सूर्य 20/06/2060	चंद्र 16/01/2077	मंगल 17/06/2088	राहु 17/09/2102
सूर्य 16/11/2044	चंद्र 19/01/2062	मंगल 13/01/2078	राहु 05/07/2089	गुरु 18/05/2105
चंद्र 18/03/2046	मंगल 28/02/2063	राहु 01/08/2080	गुरु 11/06/2090	शनि 06/03/2107
मंगल 22/02/2047	राहु 04/01/2066	गुरु 07/11/2082	शनि 21/07/2091	00/00/0000
राहु 17/07/2049	गुरु 17/07/2068	शनि 17/07/2085	बुध 17/07/2092	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शुक्र 5 वर्ष 5 मा 3 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>राहु - गुरु</b> 30/03/2018 23/08/2020	<b>राहु - शनि</b> 23/08/2020 30/06/2023	<b>राहु - बुध</b> 30/06/2023 16/01/2026	<b>राहु - केतु</b> 16/01/2026 03/02/2027	<b>राहु - शुक्र</b> 03/02/2027 03/02/2030
गुरु 25/07/2018 शनि 11/12/2018 बुध 14/04/2019 केतु 04/06/2019 शुक्र 28/10/2019 सूर्य 11/12/2019 चंद्र 22/02/2020 मंगल 13/04/2020 राहु 23/08/2020	शनि 03/02/2021 बुध 01/07/2021 केतु 31/08/2021 शुक्र 20/02/2022 सूर्य 13/04/2022 चंद्र 09/07/2022 मंगल 08/09/2022 राहु 11/02/2023 गुरु 30/06/2023	बुध 08/11/2023 केतु 02/01/2024 शुक्र 05/06/2024 सूर्य 22/07/2024 चंद्र 07/10/2024 मंगल 01/12/2024 राहु 19/04/2025 गुरु 21/08/2025 शनि 16/01/2026	केतु 07/02/2026 शुक्र 12/04/2026 सूर्य 01/05/2026 चंद्र 02/06/2026 मंगल 25/06/2026 राहु 21/08/2026 गुरु 11/10/2026 शनि 11/12/2026 बुध 03/02/2027	शुक्र 05/08/2027 सूर्य 29/09/2027 चंद्र 29/12/2027 मंगल 02/03/2028 राहु 13/08/2028 गुरु 07/01/2029 शनि 29/06/2029 बुध 01/12/2029 केतु 03/02/2030
<b>राहु - सूर्य</b> 03/02/2030 29/12/2030	<b>राहु - चंद्र</b> 29/12/2030 29/06/2032	<b>राहु - मंगल</b> 29/06/2032 17/07/2033	<b>गुरु - गुरु</b> 17/07/2033 04/09/2035	<b>गुरु - शनि</b> 04/09/2035 18/03/2038
सूर्य 20/02/2030 चंद्र 19/03/2030 मंगल 07/04/2030 राहु 26/05/2030 गुरु 09/07/2030 शनि 30/08/2030 बुध 16/10/2030 केतु 04/11/2030 शुक्र 29/12/2030	चंद्र 13/02/2031 मंगल 16/03/2031 राहु 07/06/2031 गुरु 19/08/2031 शनि 13/11/2031 बुध 30/01/2032 केतु 02/03/2032 शुक्र 01/06/2032 सूर्य 29/06/2032	मंगल 21/07/2032 राहु 17/09/2032 गुरु 07/11/2032 शनि 07/01/2033 बुध 02/03/2033 केतु 24/03/2033 शुक्र 27/05/2033 सूर्य 15/06/2033 चंद्र 17/07/2033	गुरु 29/10/2033 शनि 02/03/2034 बुध 20/06/2034 केतु 04/08/2034 शुक्र 12/12/2034 सूर्य 20/01/2035 चंद्र 26/03/2035 मंगल 11/05/2035 राहु 04/09/2035	शनि 29/01/2036 बुध 08/06/2036 केतु 01/08/2036 शुक्र 02/01/2037 सूर्य 18/02/2037 चंद्र 06/05/2037 मंगल 29/06/2037 राहु 14/11/2037 गुरु 18/03/2038
<b>गुरु - बुध</b> 18/03/2038 23/06/2040	<b>गुरु - केतु</b> 23/06/2040 30/05/2041	<b>गुरु - शुक्र</b> 30/05/2041 29/01/2044	<b>गुरु - सूर्य</b> 29/01/2044 16/11/2044	<b>गुरु - चंद्र</b> 16/11/2044 18/03/2046
बुध 13/07/2038 केतु 30/08/2038 शुक्र 15/01/2039 सूर्य 26/02/2039 चंद्र 06/05/2039 मंगल 23/06/2039 राहु 25/10/2039 गुरु 13/02/2040 शनि 23/06/2040	केतु 13/07/2040 शुक्र 07/09/2040 सूर्य 24/09/2040 चंद्र 23/10/2040 मंगल 12/11/2040 राहु 02/01/2041 गुरु 16/02/2041 शनि 11/04/2041 बुध 30/05/2041	शुक्र 08/11/2041 सूर्य 27/12/2041 चंद्र 18/03/2042 मंगल 14/05/2042 राहु 07/10/2042 गुरु 14/02/2043 शनि 18/07/2043 बुध 03/12/2043 केतु 29/01/2044	सूर्य 12/02/2044 चंद्र 08/03/2044 मंगल 25/03/2044 राहु 07/05/2044 गुरु 15/06/2044 शनि 01/08/2044 बुध 11/09/2044 केतु 28/09/2044 शुक्र 16/11/2044	चंद्र 26/12/2044 मंगल 24/01/2045 राहु 07/04/2045 गुरु 11/06/2045 शनि 27/08/2045 बुध 04/11/2045 केतु 02/12/2045 शुक्र 21/02/2046 सूर्य 18/03/2046



## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>गुरु - मंगल</b> 18/03/2046 22/02/2047	<b>गुरु - राहु</b> 22/02/2047 17/07/2049	<b>शनि - शनि</b> 17/07/2049 20/07/2052	<b>शनि - बुध</b> 20/07/2052 30/03/2055	<b>शनि - केतु</b> 30/03/2055 08/05/2056
मंगल 07/04/2046 राहु 28/05/2046 गुरु 12/07/2046 शनि 04/09/2046 बुध 23/10/2046 केतु 11/11/2046 शुक्र 07/01/2047 सूर्य 24/01/2047 चंद्र 22/02/2047	राहु 03/07/2047 गुरु 28/10/2047 शनि 15/03/2048 बुध 17/07/2048 केतु 06/09/2048 शुक्र 30/01/2049 सूर्य 15/03/2049 चंद्र 27/05/2049 मंगल 17/07/2049	शनि 07/01/2050 बुध 12/06/2050 केतु 15/08/2050 शुक्र 14/02/2051 सूर्य 10/04/2051 चंद्र 11/07/2051 मंगल 13/09/2051 राहु 25/02/2052 गुरु 20/07/2052	बुध 06/12/2052 केतु 02/02/2053 शुक्र 16/07/2053 सूर्य 03/09/2053 चंद्र 24/11/2053 मंगल 20/01/2054 राहु 16/06/2054 गुरु 26/10/2054 शनि 30/03/2055	केतु 23/04/2055 शुक्र 29/06/2055 सूर्य 20/07/2055 चंद्र 22/08/2055 मंगल 15/09/2055 राहु 15/11/2055 गुरु 08/01/2056 शनि 12/03/2056 बुध 08/05/2056
<b>शनि - शुक्र</b> 08/05/2056 09/07/2059	<b>शनि - सूर्य</b> 09/07/2059 20/06/2060	<b>शनि - चंद्र</b> 20/06/2060 19/01/2062	<b>शनि - मंगल</b> 19/01/2062 28/02/2063	<b>शनि - राहु</b> 28/02/2063 04/01/2066
शुक्र 17/11/2056 सूर्य 14/01/2057 चंद्र 20/04/2057 मंगल 26/06/2057 राहु 17/12/2057 गुरु 20/05/2058 शनि 19/11/2058 बुध 02/05/2059 केतु 09/07/2059	सूर्य 26/07/2059 चंद्र 24/08/2059 मंगल 13/09/2059 राहु 04/11/2059 गुरु 20/12/2059 शनि 13/02/2060 बुध 03/04/2060 केतु 23/04/2060 शुक्र 20/06/2060	चंद्र 07/08/2060 मंगल 10/09/2060 राहु 05/12/2060 गुरु 20/02/2061 शनि 23/05/2061 बुध 13/08/2061 केतु 16/09/2061 शुक्र 21/12/2061 सूर्य 19/01/2062	मंगल 12/02/2062 राहु 13/04/2062 गुरु 06/06/2062 शनि 09/08/2062 बुध 06/10/2062 केतु 29/10/2062 शुक्र 05/01/2063 सूर्य 25/01/2063 चंद्र 28/02/2063	राहु 03/08/2063 गुरु 20/12/2063 शनि 02/06/2064 बुध 27/10/2064 केतु 27/12/2064 शुक्र 18/06/2065 सूर्य 09/08/2065 चंद्र 04/11/2065 मंगल 04/01/2066
<b>शनि - गुरु</b> 04/01/2066 17/07/2068	<b>बुध - बुध</b> 17/07/2068 14/12/2070	<b>बुध - केतु</b> 14/12/2070 11/12/2071	<b>बुध - शुक्र</b> 11/12/2071 11/10/2074	<b>बुध - सूर्य</b> 11/10/2074 17/08/2075
गुरु 07/05/2066 शनि 01/10/2066 बुध 09/02/2067 केतु 04/04/2067 शुक्र 05/09/2067 सूर्य 21/10/2067 चंद्र 06/01/2068 मंगल 29/02/2068 राहु 17/07/2068	बुध 19/11/2068 केतु 09/01/2069 शुक्र 05/06/2069 सूर्य 19/07/2069 चंद्र 30/09/2069 मंगल 20/11/2069 राहु 01/04/2070 गुरु 27/07/2070 शनि 14/12/2070	केतु 04/01/2071 शुक्र 05/03/2071 सूर्य 23/03/2071 चंद्र 22/04/2071 मंगल 14/05/2071 राहु 07/07/2071 गुरु 24/08/2071 शनि 21/10/2071 बुध 11/12/2071	शुक्र 31/05/2072 सूर्य 22/07/2072 चंद्र 16/10/2072 मंगल 16/12/2072 राहु 20/05/2073 गुरु 05/10/2073 शनि 18/03/2074 बुध 11/08/2074 केतु 11/10/2074	सूर्य 26/10/2074 चंद्र 21/11/2074 मंगल 09/12/2074 राहु 25/01/2075 गुरु 07/03/2075 शनि 25/04/2075 बुध 08/06/2075 केतु 26/06/2075 शुक्र 17/08/2075

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	5
भाग्यांक	6
मित्र अंक	3, 5, 9, 6
शत्रु अंक	2, 4, 8
शुभ वर्ष	23,32,41,50,59
शुभ दिन	सोम, मंगल, गुरु
शुभ ग्रह	चन्द्र, मंगल, गुरु
मित्र राशि	कर्क, धनु
मित्र लग्न	मिथुन, वृश्चिक, मकर
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	पुखराज
शुभ उपरत्न	सुनहला, पीला हकीक
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	पीत
शुभ दिशा	पूर्वोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प
दान अन्न	दाल चना
दान द्रव्य	घी

## ग्रह फल

### सूर्य

बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी ,आलसी, उदासीन, परदेशवासी, मित्र-द्वेषी एवं कृश शरीर होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, क्रोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वादश भाव में स्थित है अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगे एवं जीवन में शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको नित्य अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं आपको भी पुण्य कार्यों को करने की नित्य प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

आप का भी उनके प्रति मन में पूर्ण आदर का भाव रहेगा एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का आप अनुपालन करते रहेंगे। आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे परन्तु बीच बीच में कभी सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनाव या कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही आजीवन में हमेशा उनके सहयोग एवं सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे तथा समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार की वांछित सहयोग भी प्रदान करेंगे।

### चन्द्र

द्वितीयभाव में चन्द्रमा हो तो जातक परदेशवासी, भोगी, सुन्दर मधुरभाषी, भाग्यवान्, सहनशील एवं शान्तिप्रिय होता है।

मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थिर सम्पत्तिवान्, शूर, दृढ़ शरीरवाला, बन्धुहीन, कामी, उतावला, जलभीरु, यात्रा करने का शौकीन ,आत्माभिमानी एवं साहसी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं कोई विशेष शारीरिक रुग्णता नहीं रहेगी। वे आपको हमेशा धनार्जन एवं विद्याध्ययन संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आपकी पारिवारिक उन्नति एवं पालन करने में भी उनकी मुख्य भूमिका रहेगी यदा कदा वे आपको नैतिक शिक्षा भी देंगी तथा आपके प्रति उनके हृदय में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। इसके साथ ही जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि आप उनके सहयोग से ही करेंगे।

आप की भी माता के प्रति हादिक श्रद्धा रहेगी एवं उनकी आज्ञा पालन करने में आप गौरव की अनुभूति करेंगे। साथ ही जीवन में सर्वप्रकार से उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा समयानुसार उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते रहेंगे। अतः आपकी परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं जीवन में एक दूसरों की सहायता एवं सहयोग का आदान प्रदान करके सुखानुभूति करेंगे।



## मंगल

द्वितीय भाव में मंगल हो तो जातक कटुभाषी, नेत्रकर्ण रोगी, कटुतिक्त रसप्रिय, धर्मप्रेमी, चोर से भक्ति, कुटुम्ब क्लेश वाला, पशुपालक, निर्बुद्धि एवं निर्धन होता है।

मेष राशि में मंगल हो तो जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान्, लोकमान्य, दानी एवं राजमान्य होता है।

आप के जन्म काल में मंगल द्वितीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति भी करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव विद्यमान रहेगा। धनार्जन एवं विद्यार्जन संबंधी कार्यों में वे आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही जीवन में अन्य महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों में भी आपको उनका पूर्ण सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त होगा।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा उनमें आपसी मतभेदों के कारण अनिश्चित काल के लिए कटुता या तनाव का वातावरण होगा। जीवन में आप हमेशा भाई बहिनों का सुख दुःख में ध्यान रखेंगे तथा अपनी ओर से हमेशा उन्हें पूर्ण आर्थिक एवं अन्य रूप में सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

## बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

## गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

मीन राशि में गुरु हो तो जातक लेखक, शास्त्रज्ञ, गर्वहीन, राजमान्य, शान्त, व्यवहार कुशल, दयालु, साहित्य प्रेमी, विरासत में धन सम्पत्ति प्राप्त करने वाला, साहसी एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

## शुक्र

ग्यारहवें भाव में शुक्र हो तो जातक परोपकारी, लोकप्रिय, जौहरी, विलासी, वाहनसुखी, स्थिरलक्ष्मीवान्, धनवान् गुणज्ञ, कामी एवं पुत्रवान् होता है।

मकर राशि में शुक्र हो तो जातक बलहीन, कृपण, घ्दयरोगी, दुखी, मानी, नीच जाति की

स्त्रियों में रुचि, सिद्धान्तहीन एवं अनैतिक चरित्र होता है।

### शनि

नवम भाव में शनि हो तो जातक धर्मात्मा, साहसी, प्रवासी, कृशदेही, भीरु, भातृहीन, शत्रुनाशक रोगी वातरोगी, भ्रमणशील एवं वाचाल होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरहृदय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, कोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

### राहु

लग्न (प्रथम) में राहु हो तो जातक कामी, दुर्बल, मनस्वी, अल्पसन्तति युक्त, राजद्वेषी, नीचकर्मरत दुष्ट, स्तकरोगी, स्वार्थी एवं बात-बात पर सन्देह करने वाला होता है।

मीन राशि में राहु हो तो जातक आस्तिक, कुलीन, शान्त, कलाप्रिय और दक्ष होता है।

### केतु

सप्तम भाव में केतु हो तो जातक मतिमन्द, मूर्ख, दुःखद विवाहित जीवन, पति-पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद, शत्रुभीरु एवं सुखहीन होता है।

कन्या राशि में केतु हो तो जातक सदारोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोग एवं व्यर्थवादी होता है।

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	05/03/1987-17/12/1987	-----	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/06/1995-10/08/1995	16/02/1996-17/04/1998	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	17/04/1998-07/06/2000	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	07/06/2000-23/07/2002	08/01/2003-07/04/2003	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005	26/05/2005-01/11/2006	10/01/2007-16/07/2007

### द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/03/2025-03/06/2027	03/06/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	03/06/2027-03/06/2027	23/02/2028-08/08/2029	05/10/2029-17/04/2030
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/08/2029-05/10/2029	17/04/2030-31/05/2032	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----

### तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/05/2059-11/07/2061	13/02/2062-07/03/2062	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066

### शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ ढैया	सम	बदनामी
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	स्वास्थ्य
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	अशुभ	धन
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	पराक्रम
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	सन्तति कष्ट



## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ॥**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ॥**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा अंगुली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।